

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2019 — भाद्रपद 22, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 सितम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक/388/आर 1274/2019/22-1. — छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में:-

1. नियम 9 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“(4) कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई व्यक्ति, जो मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि का पुनरीक्षण करने या उसमें नाम जोड़ने या उसमें से नाम अपवर्जित करने के लिए नियुक्त तथा प्राधिकृत किया गया हो, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन समनुदिष्ट कर्तव्यों को भंग करता है, तो वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि 3 मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा :

परन्तु यह कि कोई भी न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग या कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं अथवा कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, द्वारा लिखित में परिवाद न किया गया हो :

परन्तु यह और कि नियम 9 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा एवं यह असंज्ञेय तथा जमानती होगा :

परन्तु यह और भी कि उपरोक्त उल्लिखित प्रयोजन के लिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) का अनुसरण किया जायेगा।”

2. नियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“9 क. मिथ्या घोषणा—यदि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि, अथवा;

(ख) निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में सम्मिलित या उससे अपवर्जित किये जाने के संबंध में, ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा। यह असंज्ञेय तथा जमानती होगा। इसका विचारण सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के प्रावधान यथाशक्य लागू होंगे।”

3. नियम 11 में, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(2-क) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मतदाता सूची प्रारूप पर दावे/आपत्ति प्राप्त करने के लिए किसी कर्मचारी को प्राधिकृत करेगा। यह कर्मचारी, ग्राम पंचायत के संदर्भ में प्राधिकृत किया जायेगा।”

4. नियम 18 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“18क. पंचायत के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए यान आदि का अधिग्रहण.— (1) जिला निर्वाचन अधिकारी, यदि उसे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अधीन निर्वाचन के सम्बन्ध में यह प्रतीत हो कि किसी मतदान केन्द्र से या मतपेटियों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के प्रयोजन हेतु किसी यान, जलयान या पशु की आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, ऐसे यान, जलयान या पशु का अधिग्रहण कर सकेगा तथा ऐसे और आदेश कर सकेगा, जो उसे ऐसे अधिग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) ऐसा अधिग्रहण, उस व्यक्ति, जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्पत्ति का स्वामी समझा गया हो या व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति हो, को संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा और ऐसा आदेश उस व्यक्ति पर तामील किया जायेगा, जिसको संबोधित किया गया हो।

(3) जब कभी किसी सम्पत्ति का उप-नियम (1) के अधीन अधिग्रहण किया जाता है तो ऐसे अधिग्रहण की कालावधि, उस कालावधि, जिसके लिए उप-नियम (1) में उल्लिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए ऐसी सम्पत्ति अपेक्षित है, से परे नहीं बढ़ाई जायेगी।

स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजनों के लिए “यान” से अभिप्रेत है कोई यान, जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाये जाने के योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो।

18 ख. प्रतिकर का संदाय.— जब कभी नियम 18क के अनुसरण में किसी यान, जलयान या पशु का अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके स्वामी को प्रतिकर का संदाय किया जायेगा, जिसकी रकम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस दर के आधार पर निर्धारित की जायेगी, जैसा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के लिए ऐसे यान, जलयान या पशु हेतु नियत की गई हो :

परन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित किये गये प्रतिकर की रकम से व्यथित कोई हितबद्ध व्यक्ति, प्रतिकर अवधारित किये जाने के आदेश के जारी किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, संभागीय आयुक्त को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा। संभागीय आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

18 ग. यानों, जलयानों तथा पशुओं के अधिग्रहण के आदेश की तामील की रीति.— नियम 18 क के उप-नियम (1) के अधीन अधिग्रहण के आदेश की तामील :-

(क) जहाँ वह व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश संबोधित है कोई निगम या फर्म हो, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 29 के नियम 2 या आदेश 30 के नियम 3, जैसी भी स्थिति हो, में समन की तामील के लिए उपबंधित रीति में; और

(ख) जहाँ वह व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश संबोधित हो, कोई व्यक्ति हो तो:-

(एक) आदेश को व्यक्तिशः परिदत्त या निविदत्त करके; या

(दो) सम्यक् अभिस्वीकृति रसीद सहित रजिस्ट्री डाक द्वारा; या

(तीन) यदि व्यक्ति नहीं पाया जा सके, तो आदेश की अधिप्रमाणित प्रति उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य के पास छोड़कर या ऐसी प्रति उस परिसर के, जिसमें उसका अंतिम निवास करना या कारोबार करना अथवा अभिलाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य करना ज्ञात है, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका कर की जायेगी।

18 घ. अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति, नियम 18क के उप-नियम (1) के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा :

परन्तु यह कि नियम 18 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा एवं यह असंज्ञेय तथा जमानती होगा :

परन्तु यह और भी कि उपरोक्त उल्लिखित प्रयोजन के लिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) का अनुसरण किया जायेगा।”

5. नियम 31क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“31क. अभ्यर्थियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना, अभ्यर्थियों के आपराधिक अभिलेख, सम्पत्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हताओं आदि की जानकारी.- (1) नियम 32 के उप-नियम (1) के अधीन, नामनिर्देशन पत्र के साथ सरपंच के पद, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किये गये प्ररूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता, लंबित/विनिश्चित आपराधिक मामले तथा स्वयं की या उसके पति या पत्नी या आश्रितों की सम्पत्तियों तथा दायित्वों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होंगी तथा इस बारे में भी जानकारी अंतर्विष्ट होंगी कि क्या वह पंचायत/शासकीय भूमि अथवा भवन का अतिक्रमणकर्ता है या नहीं। शपथ पत्र, विहित प्ररूप में किसी पब्लिक नोटरी या प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी या शपथ आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा :

परन्तु ग्राम पंचायत के पंच के अभ्यर्थी के लिये शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन, प्रत्येक शपथ पत्र :-

(क) सरपंच के मामले में, प्ररूप 4 ख-1;

(ख) जनपद पंचायत सदस्य के मामले में, प्ररूप 4 ग-1;

(ग) जिला पंचायत सदस्य के मामले में, प्ररूप 4 घ-1 में होगा।

(3) सरपंच के पद, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य के लिए, अभ्यर्थियों के शपथ पत्र की एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेगी, इसकी प्रतिलिपि किसी भी नागरिक द्वारा मांग किये जाने पर विहित शुल्क का भुगतान करने पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(3-क) अभ्यर्थी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्ररूप में पंचायत द्वारा जारी “अदेय प्रमाणपत्र”, नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।

(4) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में, अभ्यर्थी के नाम निर्देशन की संवीक्षा करते समय, वह नामंजूर करने के योग्य होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी या निर्वाचक, उप-नियम (1) के अधीन अन्य अभ्यर्थी द्वारा फाईल किये गये शपथ पत्र की जानकारी के विरुद्ध शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, तो वह भी उप-नियम (3) में विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जायेगा। शपथ पत्र में उपबंधित जानकारी के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कोई जाँच नहीं जायेगी।”

6. नियम 32 में, उप नियम (1) में, खण्ड (ग) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(ग) जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन, खण्ड के भीतर के, उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा; और

(घ) जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन, जिले के भीतर के उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा, प्रस्तावक के रूप में, हस्ताक्षरित नाम निर्देशन पत्र परिदत्त किया जायेगा।”

7. नियम 33 में, उप-नियम (1) में,-

(क) खण्ड (क) में, शब्द तथा अंक “40 रुपये” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “50 रुपये” प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक “200 रुपये” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “1000 रुपये” प्रतिस्थापित किया जाये;

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द तथा अंक “500 रुपये” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “2000 रुपये” प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(घ) खण्ड (घ) में, शब्द तथा अंक “1000 रुपये” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “4000 रुपये” प्रतिस्थापित किया जाये।

8. नियम 46 में, परन्तुक में, प्रविष्टि (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“(तीन) उस दशा में, जहाँ कि मतदान प्रारंभ होने के 72 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई हो, ऐसे अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक, मतपत्र पर मुद्रित नहीं किया जायेगा।

(चार) इन परिस्थितियों में, यदि यह आवश्यक हो जाता है, तो मतपत्र पुनर्प्रकाशित किये जायेंगे तथा अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीक में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(पाँच) मृत अभ्यर्थी के नाम को हटाने के कारण मतपत्र में हुए परिवर्तन की जानकारी तत्काल समस्त अभ्यर्थियों को दी जायेगी, यदि अभ्यर्थी की मृत्यु की सूचना, नियत समय के पश्चात् प्राप्त होती है, तो मतपत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा निर्वाचन आयोग को तत्काल सूचित किया जायेगा।”

9. प्ररूप 4-ख-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“प्ररूप 4-ख-एक

(नियम 31क देखिये)

ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन

अभ्यर्थी द्वारा जमा किया जाने वाला शपथ पत्र

(नामनिर्देशन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाये)

शपथ पत्र

मैं सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी आयु निवासी
 तहसील जिला छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत जनपद
 पंचायत जिला के सरपंच के पद का प्रत्याशी हूँ।

2. मैं सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

एक. यह कि मुझे पूर्व में सजा हुई/नहीं है।

दो. यह कि मुझे निम्नलिखित मामले/मामलों में सजा हुई है :

(1) प्रकरण क्रमांक पुलिस थाना जिला राज्य

(2) अधिनियम की धारा

(3) दोषसिद्धि का दिनांक

(4) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा सजा दी गई।

- (5) दोषसिद्धि की अवधि एवं आर्थिक दण्ड का विवरण
- (6) अपील/निगरानी के परिणाम का विवरण
- तीन. यह कि मैं निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्व में निर्मुक्त/दोषमुक्त हुआ हूँ।
- (1) प्रकरण क्रमांक
- (2) अधिनियम की धारा
- (3) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा मुझे निर्मुक्त/दोषमुक्त किया गया है
- (4) निर्मुक्त/दोषमुक्त होने का दिनांक
- (5) अपील/पुनरीक्षण के परिणाम का विवरण

चार. यह कि मुझे आज से 6 माह पूर्व निम्नलिखित प्रकरणों में अपराधी बनाया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज लगाया गया है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। (इसमें केवल उन्हीं प्रकरणों का विवरण दिया जाये, जिसमें कारावास की सजा 2 या 2 से अधिक वर्ष की दी जा सकती है।) (इसमें खण्ड एक एवं दो के प्रकरणों को सम्मिलित न किया जाये।)

पाँच. यह कि मेरे स्वयं की, पति/पत्नी और आश्रितों की चल, अचल संपत्ति तथा बैंक जमा राशि एवं अन्य का विवरण निम्नानुसार है :-

(क) चल संपत्तियाँ (संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में, अपना हिस्सा स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिये एवं अन्य स्वामित्वधारियों का नाम, उम्र, व्यवसाय तथा अभिसाक्षी का उनसे संबंध स्पष्ट रूप से बताया जाये।) आश्रितों से अभिप्रेत है, जो मुख्य रूप से शपथकर्ता की आय पर आश्रित है।

स. क्र.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रितों का नाम
1.	नकद			
2.	बैंक, डाकघर बचत, एल.आई.सी., कंपनियों के बांड एवं वित्तीय साधन में जमा धनराशि			
3.	मोटर (कार, मोटर साइकल एवं अन्य) वाहन (कम्पनी, मॉडल इत्यादि का विवरण)			
4.	गहने (धातु, वजन तथा मूल्य का विवरण दें।)			
5.	अन्य आस्तियाँ, जैसे दावे का मूल्य एवं ब्याज।			

(ख) अचल संपत्तियों का विवरण— स्वतः एवं आश्रितों के साथ संयुक्त स्वामित्व का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रितों का नाम
1.	कृषि भूमि (1) ग्राम का नाम, जहाँ स्थित है। (2) कुल क्षेत्रफल (अनुमानित) (3) वर्तमान बाजार मूल्य			
2.	गैर-कृषि भूमि (1) ग्राम का नाम, जहाँ स्थित है। (2) कुल क्षेत्रफल (अनुमानित) (3) वर्तमान बाजार मूल्य			
3.	भवन (व्यवसायिक और आवासीय, पृथक-पृथक दर्शाया जाये)। जिला तहसील स्थान का नाम कुल क्षेत्रफल (अनुमानित) वर्तमान बाजार मूल्य			
4.	अन्य			

(ग) पंचायत अथवा शासकीय भूमि या भवन पर अतिक्रमण का विवरण।

(घ) क्या निवास परिसर में जलवाहित शौचालय है ? हाँ/नहीं

छ. मेरी शासकीय एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की देनदारियाँ निम्नानुसार हैं :-

स. क्र.	विवरण	शासकीय विभागों/बैंक/वित्तीय संस्थाओं तथा पंचायत का नाम एवं पता	अद्यतन बकाया राशि
क.	(1) बैंक, वित्तीय संस्थाओं से ऋण (2) शासकीय विभाग/पंचायत आदि की बकाया वसूली		
ख.	वसूली		
ग.	(1) चालू वर्ष के आयकर रिटर्न का विवरण, स्थायी लेखा नम्बर का उल्लेख किया जाये। (2) चालू वर्ष के वेल्थ टैक्स, सम्पत्ति कर का विवरण। (3) वाणिज्यिक कर। (4) संपत्ति कर।		

सात. मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

(कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं सहित अपनी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का उल्लेख, क्रम से करें)
विद्यालय/शिक्षा मंडल एवं विश्वविद्यालय का नाम, जहाँ से डिग्री प्राप्त की गई है या कोर्स किया गया है।

उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रमाण पत्र/उपाधि	विद्यालय/महाविद्यालय	शिक्षामंडल/विश्वविद्यालय

.....
हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं आत्मज/आत्मजा/पत्नी यह सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा की कंडिका एक से सात में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इससे संबंधित किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

.....
हस्ताक्षर शपथकर्ता

10. प्ररूप 4-ग-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“प्ररूप 4-ग-एक

(नियम 31क देखिये)

जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

अभ्यर्थी द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र

(नामनिर्देशन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाये)

शपथ पत्र

मैं सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी आयु निवासी
.... तहसील जिला छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत जनपद
पंचायत जिला के सरपंच के पद का प्रत्याशी हूँ।

2. मैं सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

एक. यह कि मुझे पूर्व में सजा हुई/नहीं है।

दो. यह कि मुझे निम्नलिखित मामले/मामलों में सजा हुई है :

- (1) प्रकरण क्रमांक पुलिस थाना जिला राज्य
- (2) अधिनियम की धारा
- (3) दोषसिद्धि का दिनांक
- (4) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा सजा दी गई।
- (5) दोषसिद्धि की अवधि एवं आर्थिक दण्ड का विवरण
- (6) अपील/निगरानी के परिणाम का विवरण

तीन. यह कि मैं निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्व में निर्मुक्त/दोषमुक्त हुआ हूँ।

- (1) प्रकरण क्रमांक
- (2) अधिनियम की धारा
- (3) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा मुझे निर्मुक्त/दोषमुक्त किया गया है
- (4) निर्मुक्त/दोषमुक्त होने का दिनांक
- (5) अपील/पुनरीक्षण के परिणाम का विवरण

चार. यह कि मुझे आज से 6 माह पूर्व निम्नलिखित प्रकरणों में अपराधी बनाया गया है। जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज लगाया गया है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। (इसमें केवल उन्हीं प्रकरणों का विवरण दिया जाये, जिसमें कारावास की सजा 2 या 2 से अधिक वर्ष की दी जा सकती है।) (इसमें खण्ड एक एवं दो के प्रकरणों को सम्मिलित न किया जाये।)

पाँच. यह कि मेरे स्वयं की, पति/पत्नी और आश्रितों की चल, अचल संपत्ति तथा बैंक जमा राशि एवं अन्य का विवरण निम्नानुसार है :-

(क) चल संपत्तियाँ (संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में, अपना हिस्सा स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिये एवं अन्य स्वामित्वधारियों का नाम, उम्र, व्यवसाय तथा अभिसाक्षी का उनसे संबंध स्पष्ट रूप से बताया जाये।) आश्रितों से अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से शपथकर्ता की आय पर आश्रित है।

स. क्र.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रितों का नाम
1.	नकद			
2.	बैंक, डाकघर बचत, एल.आई.सी., कंपनियों के बांड एवं वित्तीय साधन में जमा धनराशि			
3.	मोटर (कार, मोटर साइकल एवं अन्य) वाहन (कम्पनी, मॉडल इत्यादि का विवरण)			
4.	गहने (धातु, वजन तथा मूल्य का विवरण दें।)			
5.	अन्य आस्तियाँ, जैसे दावे का मूल्य एवं ब्याज।			

(ख) अचल संपत्तियों का विवरण- स्वतः एवं आश्रितों के साथ संयुक्त स्वामित्व का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रितों का नाम
1.	कृषि भूमि (1) ग्राम का नाम, जहाँ स्थित है। (2) कुल क्षेत्रफल (अनुमानित) (3) वर्तमान बाजार मूल्य			
2.	गैर-कृषि भूमि (1) ग्राम का नाम, जहाँ स्थित है। (2) कुल क्षेत्रफल (अनुमानित) (3) वर्तमान बाजार मूल्य			
3.	भवन (व्यवसायिक और आवासीय, पृथक-पृथक)			

	दर्शाया जाये। जिला तहसील स्थान का नाम कुल क्षेत्रफल (अनुमानित) वर्तमान बाजार मूल्य			
4.	अन्य			

(ग) पंचायत अथवा शासकीय भूमि या भवन पर अतिक्रमण का विवरण।

(घ) क्या निवास परिसर में जलवाहित शौचालय है ? हाँ/नहीं

छ. मेरी शासकीय एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की देनदारियाँ निम्नानुसार हैं :-

स. क्र.	विवरण	शासकीय विभागों/बैंक/ वित्तीय संस्थाओं तथा पंचायत का नाम एवं पता	अद्यतन बकाया राशि
क.	(1) बैंक, वित्तीय संस्थाओं से ऋण (2) शासकीय विभाग/पंचायत आदि की बकाया वसूली		
ख.	वसूली		
ग.	(1) चालू वर्ष के आयकर रिटर्न का विवरण, स्थायी लेखा नम्बर का उल्लेख किया जाये। (2) चालू वर्ष के वेल्थ टैक्स, सम्पत्ति कर का विवरण। (3) वाणिज्यिक कर। (4) संपत्ति कर।		

सात. मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

(कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं सहित अपनी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का उल्लेख, क्रम से करें)

विद्यालय/शिक्षा मंडल एवं विश्वविद्यालय का नाम, जहाँ से डिग्री प्राप्त की गई है या कोर्स किया गया है।

उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रमाण पत्र/उपाधि	विद्यालय/महाविद्यालय	शिक्षामंडल/विश्वविद्यालय

.....
हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं आत्मज/आत्मजा/पत्नी यह सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा की कंडिका एक से सात में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इससे संबंधित किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

.....
हस्ताक्षर शपथकर्ता

11. प्ररूप 4-घ-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“प्ररूप 4-घ-एक
(नियम 31क देखिये)
जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन
अभ्यर्थी द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र
(नामनिर्देशन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाये)
शपथ पत्र

मैं सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी आयु निवासी
... तहसील जिला छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत जनपद
पंचायत जिला के सरपंच के पद का प्रत्याशी हूँ।

2. मैं सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

एक. यह कि मुझे पूर्व में सजा हुई/नहीं है।

दो. यह कि मुझे निम्नलिखित मामले/मामलों में सजा हुई है :

- (1) प्रकरण क्रमांक पुलिस थाना जिला राज्य
- (2) अधिनियम की धारा
- (3) दोषसिद्धि का दिनांक
- (4) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा सजा दी गई।
- (5) दोषसिद्धि की अवधि एवं आर्थिक दण्ड का विवरण
- (6) अपील/निगरानी के परिणाम का विवरण

तीन. यह कि मैं निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्व में निर्मुक्त/दोषमुक्त हुआ हूँ।

- (1) प्रकरण क्रमांक
- (2) अधिनियम की धारा
- (3) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा मुझे निर्मुक्त/दोषमुक्त किया गया है
- (4) निर्मुक्त/दोषमुक्त होने का दिनांक
- (5) अपील/पुनरीक्षण के परिणाम का विवरण

चार. यह कि मुझे आज से 6 माह पूर्व निम्नलिखित प्रकरणों में अपराधी बनाया गया है। जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज लगाया गया है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। (इसमें केवल उन्हीं प्रकरणों का विवरण दिया जाये, जिसमें कारावास की सजा 2 या 2 से अधिक वर्ष की दी जा सकती है।) (इसमें खण्ड एक एवं दो के प्रकरणों को सम्मिलित न किया जाये।)

पाँच. यह कि मेरे स्वयं की, पति/पत्नी और आश्रितों की चल, अचल संपत्ति तथा बैंक जमा राशि एवं अन्य का विवरण निम्नानुसार है :-

(क) चल संपत्तियाँ (संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में, अपना हिस्सा स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिये एवं अन्य स्वामित्वधारियों का नाम, उम्र, व्यवसाय तथा अभिसाक्षी का उनसे संबंध स्पष्ट रूप से बताया जाये।) आश्रितों से अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से शपथकर्ता की आय पर आश्रित है।

स. क्र.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रितों का नाम
1.	नकद			
2.	बैंक, डाकघर बचत, एल.आई.सी., कंपनियों के बांड एवं वित्तीय साधन में जमा धनराशि			

3.	मोटर (कार, मोटर साइकल एवं अन्य) वाहन (कम्पनी, मॉडल इत्यादि का विवरण)			
4.	गहनें (धातु, वजन तथा मूल्य का विवरण दें।)			
5.	अन्य आस्तियां, जैसे दावे का मूल्य एवं ब्याज।			

(ख) अचल संपत्तियों का विवरण— स्वतः एवं आश्रितों के साथ संयुक्त स्वामित्व का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रितों का नाम
1.	कृषि भूमि (1) ग्राम का नाम, जहाँ स्थित है। (2) कुल क्षेत्रफल (अनुमानित) (3) वर्तमान बाजार मूल्य			
2.	गैर-कृषि भूमि (1) ग्राम का नाम, जहाँ स्थित है। (2) कुल क्षेत्रफल (अनुमानित) (3) वर्तमान बाजार मूल्य			
3.	भवन (व्यवसायिक और आवासीय, पृथक-पृथक दर्शाया जाये)। जिला तहसील स्थान का नाम कुल क्षेत्रफल (अनुमानित) वर्तमान बाजार मूल्य			
4.	अन्य			

(ग) पंचायत अथवा शासकीय भूमि या भवन पर अतिक्रमण का विवरण।

(घ) क्या निवास परिसर में जलवाहित शौचालय है ? हाँ/नहीं

छः मेरी शासकीय एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की देनदारियाँ निम्नानुसार हैं :-

स. क्र.	विवरण	शासकीय विभागों/बैंक/ वित्तीय संस्थाओं तथा पंचायत का नाम एवं पता	अद्यतन बकाया राशि
क.	(1) बैंक, वित्तीय संस्थाओं से ऋण (2) शासकीय विभाग/पंचायत आदि की बकाया वसूली		
ख.	वसूली		
ग.	(1) चालू वर्ष के आयकर रिटर्न का विवरण, स्थायी लेखा नम्बर का उल्लेख किया जाये। (2) चालू वर्ष के वेल्थ टैक्स, सम्पत्ति कर का विवरण। (3) वाणिज्यिक कर। (4) संपत्ति कर।		

सात. मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :-

(कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं सहित अपनी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का उल्लेख, क्रम से करें)

विद्यालय/शिक्षा मंडल एवं विश्वविद्यालय का नाम, जहाँ से डिग्री प्राप्त की गई है या कोर्स किया गया है।

उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रमाण पत्र/उपाधि	विद्यालय/महाविद्यालय	शिक्षामंडल/विश्वविद्यालय

.....
हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं आत्मज/आत्मजा/पत्नी यह सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा की कंडिका एक से सात में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इससे संबंधित किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

.....
हस्ताक्षर शपथकर्ता

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र कुमार शुक्ला, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 11th September 2019

NOTIFICATION

No./388 /R.No. 1274 /2019/22-1/. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 9, after sub-rule (3), the following shall be added, namely,-

“(4) Any Registration Officer or Assistant Registration Officer or any person, who is appointed and authorized for revision or to add or delete any Entry of Electoral Roll, does violation of the duties assigned under the provision of said Act, shall be punishable with simple imprisonment which must not be less than 3 month, but up to 2 years or fine or with both:

Provided that no court shall take cognizance unless State Election Commission or the Collector and District Election Officer himself or an officer authorized by the Collector and District Election Officer, who is not below the rank of Deputy Collector, has given complaint in writing:

Provided further that any offence punishable under rule 9 shall be tried by Competent Judicial Magistrate and shall be non-cognizable and bailable:

Provided further also that, for above mentioned purposes, the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) shall be followed.”

2. After rule 9, the following shall be added, namely,-

“9A. False declaration- If any person in connection with-

- (a) preparation, revision or purification of electoral roll, or;
- (b) inclusion or deletion of any entry of electoral roll,

makes any statement or written declaration which is false or which he/she either knows or believes to be false or does not believe to be true, such person shall be punishable with imprisonment for a term, which may extend to one year or fine or with both. It shall be non-cognizable and bailable, the same will be tried by the Competent Judicial Magistrate and the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) shall apply as soon as possible."

3. In rule 11, after sub-rule (2), the following shall be inserted, namely,-

"(2-a) Registration Officer should authorize an employee to receive claims/objection over draft electoral roll. This employee shall be authorized in reference to the Gram Panchayat."

4. After rule 18, the following shall be added, namely,-

"18 A. Requisition of Vehicles etc. for. Panchayat Election purposes- (1) The District Election Officer may, if it appears to him in connection with election under the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994), that any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling station or transport of members of the police force for maintaining law and order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duty in connection with such election, he may by order in writing, require such vehicle, vessel or animal and may make such further orders as may appear to him to be necessary or expedient in connection with the requisition.

(2) Such requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the District Election Officer to be the owner or person in possession of the property and such order shall be served on the person to whom it is addressed.

(3) Whenever any property is requisitioned under sub-rule (1) the period of such requisition shall not be extended beyond the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in sub-rule(1).

Explanation :- For the purposes of this rule "Vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise.

18B. Payment of Compensation - Whenever in pursuance of rule 18-A, any vehicle, vessel or animal is requisitioned, compensation thereof shall be paid to the owner, the amount of which shall be determined by the District Election Officer on the basis of rate fixed by the Chief Electoral Officer for such vehicle, vessel or animal for State Assembly Elections:

Provided that any person interested, being aggrieved by the amount of compensation determined by District Election Officer, may apply within thirty days from the date of issue of the order determining the compensation to the Divisional Commissioner for a review. The decision of the Divisional Commissioner shall be final.

18C. Manner of Execution of order of requisition of vehicles, vessels and animals. - An order of requisition under sub-rule (1) of rule 18A shall be served:-

(a) Where a person to whom such order is addressed is a Corporation or firm, in the manner provided for the service of summons in rule 2 of Order XXIX or rule 3 of Order XXX, as the case may be, of the first Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908); and

(b) Where the person to whom such order is addressed is an individual: -

(i) Personally, by delivering or tendering the order, or

(ii) By registered post with acknowledgment due, or

(iii) If the person cannot be found, by leaving an authentic copy of the order with any adult member of his family, or by affixing such copy on some conspicuous part of the premises in which he is known to have last resided or carried on business, or personally worked for gain.

- 18D. Penalty for contravention of any order regarding requisition.- If any person contravenes any order made under sub-rule (1) of rule 18A, he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to rupees five hundred or with both:

Provided that any offence punishable under rule 18 shall be tried by Competent Judicial Magistrate and shall be non-cognizable and bailable:

Provided further also that, for above mentioned purposes, the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) shall be followed."

5. For rule 31A, the following shall be substituted, namely,-

"31A. Presentation of Affidavit by candidates, information about Criminal records, properties, liabilities and educational qualification etc. of candidates- (1) Under sub-rule (1) of rule 32, along with nomination paper, every candidate for the post of Sarpanch, member of Janpad Panchayat and Zila Panchayat, shall present an affidavit, in the form, as prescribed by Election Commission, containing candidate's information about educational qualification, any pending/decided criminal cases, and information regarding his own or his spouse's or dependant's properties and liabilities and information regarding whether he is trespasser of panchayat/government land or building or not. Affidavit shall be presented in prescribed form, before any public notary or Class-I Magistrate, or an oath Commissioner:

Provided that it shall not be necessary for a candidate of Panch of Gram Panchayat to present an affidavit.

(2) Under sub-rule (1), every affidavit shall be :-

- (a) In case of Sarpanch, in form 4-B-1;
- (b) In case of Janpad Panchayat member in form 4-C-1;
- (c) In case of Zila Panchayat member in form 4-D-1.

(3) A copy of affidavit of candidates for the post of Sarpanch, member of Janpad Panchayat and Zila Panchayat shall be displayed on the notice board of the office of the Returning Officer. On demand, a copy of same shall also be made available to citizen on payment of prescribed fee.

(3-a) Candidates shall present "No dues certificate" along with nomination paper, issued by Panchayat in a form prescribed by State Election Commission.

(4) In case, affidavit is not submitted by any candidate, at the time of scrutiny of nomination paper of the candidate, he shall be liable for rejection.

If any candidate or elector files an affidavit against information of the affidavit, filed by other candidate under sub-rule (1), it should be displayed as per procedure prescribed in sub rule (3). No inquiry shall be conducted by Returning Officer in relation to information provided in the affidavit."

6. In rule 32, in sub-rule (1), for clause (c) and (d), the following shall be substituted, namely,-

"(c) election of member of Janpad Panchayat, by any voter of that constituency within the block and;

(d) election of member of Zila Panchayat, by any voter of that constituency, within the district, signed nomination paper, as a proposer, shall be delivered."

7. In rule 33, in sub-rule (1),-

- (a) in clause (a), for the word and figure "Rs. 40", the word and figure "Rs. 50" shall be substituted;
- (b) in clause (b), for the word and figure "Rs. 200", the word and figure "Rs. 1000" shall be substituted;
- (c) in clause (c), for the word and figure "Rs. 500", the word and figure "Rs. 2000" shall be substituted; and
- (d) in clause (d), for the word and figure "Rs. 1000", the word and figure 'Rs. 4000' shall be substituted.

8. In rule 46, in proviso, after entry (ii), the following shall be added, namely,-

- "(iii) In case, where information of death of candidate is received 72 hours prior to the commencement of poll, name and symbol allotted to such candidate, shall not be printed on ballot paper.
- (iv) In these conditions, where it is desired, ballot paper shall be reprinted and no changes shall be made to the election symbols allotted to other candidates.
- (v) An immediate intimation is to be given to all candidates for changes made in ballot paper due to removal of the name of the dead candidate, if information of death of candidate is received after stipulated time, no changes shall be made in ballot paper and Election Commission is to be informed immediately."

9. For Form 4-B-1, the following shall be substituted, namely:-

"FORM 4-B-1

(See rule 31-A)

ELECTION OF SARPANCH OF GRAM PANCHAYAT

Affidavit form to be submitted by the candidate

(To be submitted with nomination form to the Returning officer)

Affidavit form

I son/daughter/wife of
 Age..... resident of Tehsil District Chhattisgarh, am
 a candidate for the post of Sarpanch of Gram Panchayat..... Janpad Panchayat
 district

2. I solemnly state as under:-

I. That, I have/have not been convicted previously.

II. That, I have been convicted in following case/cases :

- (1) Case no. Police Station
 District State
- (2) Section of the Act.
- (3) Date of conviction
- (4) Name of the court by whom convicted.
- (5) Details of period of conviction and financial punishment.
- (6) The details of result of Appeal/Surveillance.

III. That, I have been discharged/acquitted previously in following cases.

- (1) Case no.
- (2) Section..... of theAct.
- (3) Name of the court, by whom I was discharged/ acquitted
- (4) Dates of discharge/acquittal
- (5) The details of Result of Appeal/ Revision.

IV. That, I was held as culprit, before 6 months from today, in the following cases. In which the charges have been framed by the court or the court has taken cognizance. (In this, details of only those cases should be given in which imprisonment for 2 year or more can be sentenced) (In this, cases of clause I and II should not be included).

V. That, the details of moveable, immoveable properties and bank deposits and other belonging to myself, husband/wife and dependants are as under:-

(A) Moveable properties (in case of properties of joint ownership, your own share should be clearly mentioned and other title holder's names, age, business and relation to the declarant with them should be clearly explained.) Dependant means those who are mainly dependent on the income of the declarant.

S.No.	Particulars	Self	Name of husband/wife	Name of Dependents
1.	Cash			
2.	Bank, post office savings, LIC, Bonds of companies and deposit amount in financial means.			
3.	Motor (car, motor cycle and others) vehicles (details of company, model etc.)			
4.	Jewellery (mention details of metal, weight and value).			
5.	Other Assets like the maturity value and interest.			

(B) Details of immovable properties :- Details of joint ownership along with the self and dependents are under :-

S.No.	Particulars	Self	Name of husband/wife	Name of Dependents
1.	Agricultural Land (1) Name of the Village where located. (2) Total area (estimated) (3) Present Market Value			
2.	Non- agricultural Land (1) Name of the Village where located. (2) Total area (estimated) (3) Present Market Value			
3.	Building (commercial and residential, be mentioned separately). District Tehsil Name of the place Total area (estimated) Present Market Value			
4.	Others			

(C) Details of encroachment on Panchayat or Government Land or building.

(D) Whether you have flush latrine in residential premises ? Yes/No.

VI. My dues to Government and public financial institutions are as under:-

S.No.	Particulars	Name & address of Government departments/Bank/Financial institutions and Panchayat	Arrear amount up to dated
A.	(1) Loans from Bank, Financial Institutions. (2) Arrear recovery of the Government department/panchayat etc.		
B.	Recoveries		
C.	(1) Details of Income tax return of the current year, specified the PAN number. (2) Details of Wealth tax. Property tax of current year. (3) Commercial tax. (4) Property tax.		

VII. My educational qualification is as under:-

(Mention School and University standard education including class 5th and class 8th, in order) Name of the school/education Board and University from where the Degree has been received or course has been done.

Year of passing	Certificate/Degree	School/College	Education Board/University

Signature of the Deponent

VERIFICATION

I Son/daughter/wife of do hereby verify that the facts mentioned in the clauses I to VII of the above declaration are true according to my knowledge and any facts in connection therewith have not been concealed.

Signature of the Deponent "

10. For Form 4-C-1, the following shall be substituted, namely:-

"FORM 4-C-1

(See Rule 31-A)

ELECTION OF MEMBER OF JANPAD PANCHAYAT

Affidavit form to be submitted by the candidate

(To be submitted with nomination form to the Returning Officer)

Affidavit form

Ison/daughter/wife of..... age Resident of Tehsil District Chhattisgarh, am a candidate for the post of member of Constituency no. of Janpad panchayat district

2. I solemnly state as under:-

I. That, I have/have not been convicted previously.

II. That, I have been convicted in following case/cases :

- (1) Case no. Police Station
District State
- (2) Section of the Act.
- (3) Date of conviction
- (4) Name of the court by whom convicted.
- (5) Details of period of conviction and financial punishment.
- (6) The details of Result of Appeal/Surveillance.

III. That, I have been discharged/acquitted previously in following cases.

- (1) Case no.
- (2) Section..... of theAct.
- (3) Name of the court, by whom I was discharged/acquitted.....
- (4) Dates of discharge/acquittal.....
- (5) The details of Result of Appeal/ Revision.

- IV. That, I was held as a culprit, before 6 months from today, in the following cases. In which the charges have been framed by the court or the court has taken cognizance. (In this, details of only those cases should be given in which imprisonment for 2 year or more can be sentenced) (In this, cases of clause I and II should not be included).

- V. That, the details of moveable, immoveable properties and bank deposits and other belonging to myself, husband/wife and dependants are as under:-
- (A) Moveable properties (in case of properties of joint ownership, your own share should be clearly mentioned and other titleholder's names, age, business and relation to the declarant with them should be clearly explained.) Dependant means those who are mainly dependent on the income of the declarant.

S.No.	Particulars	Self	Name of husband/wife	Name of Dependents
1.	Cash			
2.	Bank, post office savings, LIC, Bonds of companies and deposit amount in financial means.			
3.	Motor (car, motor cycle and others) vehicles (details of company, model etc.)			
4.	Jewellery (mention details of metal, weight and value).			
5.	Other Assets like the maturity value and interest.			

- (B) Details of immovable properties: - Details of joint ownership along with the self and dependants are under:-

S.No.	Particulars	Self	Name of husband/wife	Name of dependents
1.	Agricultural Land (1) Name of the Village where located. (2) Total area (estimated) (3) Present Market Value			
2.	Non- agricultural Land (1) Name of the Village where located. (2) Total area (estimated) (3) Present Market Value			
3.	Building (commercial and residential, be mentioned separately). District Tehsil Name of the place Total area (estimated) Present Market Value			
4.	Others			

- (C) Details of encroachment on Panchayat or government Land or building

- (D) Whether you have flush latrine in residential premises ? Yes/No

- VI. My dues to Government and public financial institutions are as under:-

S.No.	Particulars	Name & address of Government departments/Bank/ Financial institutions and Panchayat	Arrear amount up to dated
A.	(1) Loans from Bank, Financial Institutions.		

	(2) Arrear recovery of the Government department/ Panchayat etc.		
B.	Recoveries		
C.	(1) Details of Income tax return of the current year, specified the PAN number. (2) Details of Wealth tax. Property tax of current year. (3) Commercial tax. (4) Property tax.		

VII. My educational qualification is as under:

(Mention school and university standard education including class 5th and class 8th, in order) Name of the school/education board and university from where the Degree has been received or course has been done.

Year of passing	Certificate/Degree	School/College	Education Board/University

Signature of the Deponent

VERIFICATION

I Son/daughter/wife of do hereby verify that the facts mentioned in the clauses I to VII of the above declaration are true according to my knowledge and any facts in connection therewith have not been concealed.

.....
Signature of the Deponent"

11. For Form 4-D-1, the following shall be substituted, namely:-

"FORM 4-D-1
(See Rule 31-A)
ELECTION OF MEMBER OF ZILA PANCHAYAT
Affidavit form to be submitted by the candidate
(To be submitted with nomination form to the Returning officer)
Affidavit form

Ison/daughter/wife of..... age..... Resident of Tehsil District Chhattisgarh, am a candidate for the post of member of Constituency no. of Zila panchayat District

2. I solemnly state as under :-

I. That, I have/have not been convicted previously.

II. That, I have been convicted in following case/cases :

- (1) Case no. Police Station
District State
- (2) Section of the Act.
- (3) Date of conviction
- (4) Name of the court by whom convicted.
- (5) Details of period of conviction and financial punishment.
- (6) The details of Result of Appeal/Surveillance.

III. That, I have been discharged/acquitted previously in following cases.

- (1) Case no.
- (2) Section..... of theAct.
- (3) Name of the court, by whom I was discharged/acquitted.....
- (4) Dates of discharge/acquittal.....
- (5) The details of Result of Appeal / Revision.

IV. That, I was held as a culprit, before 6 months from today, in the following cases. In which the charges have been framed by the court or the court has taken cognizance. (In this, details of only those cases should be given in which imprisonment for 2 year or more can be sentenced) (In this, cases of clause I and II should not be included).

V. That, the details of moveable, immovable properties and bank deposits and other belonging to myself, husband/wife and dependants are as under:-

(A) Moveable properties (in case of properties of joint ownership, your own share should be clearly mentioned and other titleholder's names, age, business and relation to the declarant with them should be clearly explained) Dependant means those who are mainly dependent on the income of the declarant .

S.No.	Particulars	Self	Name of husband/wife	Name of Dependents
1.	Cash			
2.	Bank, post office savings, LIC, Bonds of companies and deposit amount in financial means.			
3.	Motor (car, motor cycle and others) vehicles (details of company, model, etc.)			
4.	Jewellery (mention details of metal, weight and value).			
5.	Other Assets like the maturity value and interest.			

(B) Details of immovable properties :- Details of joint ownership alongwith the self and dependents are under :-

S.No.	Particulars	Self	Name of husband/wife	Name of Dependents
1.	Agricultural Land (1) Name of the Village where located. (2) Total area (estimated) (3) Present Market Value			
2.	Non- agricultural Land (1) Name of the Village where located. (2) Total area (estimated) (3) Present Market Value			
3.	Building (commercial and residential, be mentioned separately). District Tahsil Name of the place Total area (estimated) Present Market Value			
4.	Others			

(C) Details of encroachment on Panchayat or Government Land or Building

(D) Whether you have flush latrine in residential premises ? Yes/No.

VI. My dues to Government and public financial institutions are as under :-

S.No.	Particulars	Name & address of Government departments/Bank/ Financial institutions and Panchayat	Arrear amount upto dated
A.	(1) Loans from Bank, Financial Institutions. (2) Arrear recovery of the Government/Panchayat, etc.		
B.	Recoveries		
C.	(1) Details of Income tax return of the current year, specified the PAN number. (2) Details of Wealth tax. Property tax of current year. (3) Commercial tax. (4) Property tax.		

VII. My educational qualification is as under :

(Mention school and university standard education including class 5th and class 8th, in order) Name of the school/education Board and University from where the Degree has been received or course has been done.

Year of passing	Certificate/Degree	School/College	Education Board/University

Signature of the Deponent

VERIFICATION

I, Son/daughter/wife of do hereby verify that the facts mentioned in the clauses I to VII of the above declaration are true according to my knowledge and any facts in connection therewith have not been concealed.

.....
Signature of the Deponent"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA KUMAR SHUKLA, Deputy Secretary.